

अंतरिक्ष विभाग/इसरो ई-खरीद पोर्टल

भारतीय विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया

अंतरिक्ष विभाग/इसरो ने विभाग की खरीद गतिविधियों को संचालित करने हेतु ई-खरीद पोर्टल बनाया है। यह साइट सक्रिय है तथा URL <https://eprocure.isro.gov.in> पर इसका अभिगम किया जा सकता है।

भारतीय विक्रेताओं को निम्नलिखित केंद्रों/यूनिटों की निविदाओं को देखने/उनका उत्तर देने के लिए ई-खरीद पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। विदेशी विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राधिकृत भारतीय एजेंट भी अंतरिक्ष विभाग/इसरो की निविदाओं का उत्तर देने के लिए इस पोर्टल पर स्वयं का पंजीकरण करा सकते हैं।

1. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), तिरुवनंतपुरम
2. इसरो उपग्रह केंद्र (आईजेक), बेंगलोर
3. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, शार, श्रीहरिकोटा
4. द्रव नोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी), वलियमला
5. अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (सैक), अहमदाबाद
6. इसरो दूरमिति, अनुवर्तन एवं कमांड नेटवर्क (इस्ट्रैक), बेंगलोर
7. इंसेट मुख्य नियंत्रण सुविधा (एमसीएफ), हासन
8. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), हैदराबाद
9. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल), अहमदाबाद
10. सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल), चंडीगढ़
11. इसरो मुख्यालय, बेंगलोर
12. एंट्रिक्स, एनई-सैक एवं एनएआरएल

कंपनी के मात्र प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही विक्रेता पंजीकरण किया जा सकता है। उनके पास निम्नलिखित चीजें होनी अपेक्षित हैं:-

1. भारत के प्रमाणित प्राधिकारी द्वारा जारी अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीसी)
2. पत्राचार हेतु कंपनी का ई-मेल आईडी

पंजीकरण प्रक्रिया में विक्रेता पंजीकरण और सामग्री नामिकायन किया जाना है। पंजीकरण करने से किसी भी केंद्र/यूनिट द्वारा जारी सार्वजनिक निविदा में विक्रेता भाग ले सकेंगे। एकल/सीमित निविदा में भाग लेने हेतु सामग्री नामिकायन किया जाना अनिवार्य है। किसी केंद्र/यूनिट से निविदा के लिए पूछताछ प्राप्त हेतु, विक्रेता को इसरो ई-खरीद पोर्टल पर संबंधित केंद्र/यूनिट की सामग्री की पूर्व निर्धारित श्रेणी में नामिकायन करना अनिवार्य है।

इसरो ई-पोर्टल पर लॉग-इन करने और बोली प्रस्तुत करने के लिए अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र अनिवार्य है। विक्रेता को वैध डीसी से पंजीकरण करना होगा। जो पोर्टल पर पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं, वे बोली प्रक्रिया में रखी गई निविदाओं को समय-समय पर देखते रहें।

विस्तृत अनुदेश, पूर्व आवश्यकताएं और सचित्र ट्यूटोरियल <https://eprocure.isro.gov.in> लिंक पर पोर्टल में उपलब्ध है। टेलीफोन अथवा ई-मेल द्वारा विक्रेताओं की सहायता किए जाने के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है।